



HB PORTFOLIO LIMITED

Regd. Office : Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector - 32, Gurugram -122001 (Haryana)
Ph.:0124-4675500, Fax:0124-4370985, E-mail:corporate@hbportfolio.com
Website : www.hbportfolio.com, CIN : L67120HR1994PLC034148

July 21, 2020

Listing Centre

The Listing Department
BSE Limited,
Pheroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001

Company Code: 532333

Sub: - Copies of Newspaper Advertisement
Compulsory Transfer of Equity Shares of the Company to the IEPF Authority

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed copies of newspaper advertisement duly published by the Company in Business Standard (English & Hindi Edition) on 21st July, 2020 in respect of compulsory transfer of Equity Shares of the Company to DEMAT Account of the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority:

The above may please be treated as compliance of Regulation 47 and Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Para A of Part A of Schedule III of said Regulations.

Copies of the said advertisements are also available on the website of the Company, www.hbportfolio.com

Thanking you,
Yours faithfully,
For **HB PORTFOLIO LIMITED**

DINESH KAPOOR
(Company Secretary & Compliance Officer)

NOTICE



Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of V-Guard Industries Ltd., (the Company) is scheduled to be held on Monday, July 27, 2020 at Ernakulam, to consider and approve the standalone and consolidated unaudited financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2020, apart from other agenda items.

Notice of the aforesaid meeting is available on the Company's website, www.vguard.in and on the website of National Stock Exchange of India Limited, www.nseindia.com and BSE Limited, www.bseindia.com.

For V-GUARD INDUSTRIES LIMITED
Sd/-
Jayasree K
Company Secretary

Place: Ernakulam
Date : 21.07.2020

V-GUARD INDUSTRIES LIMITED., Regd. Office: 42/962, Vennala High School Road, Vennala P.O, Ernakulam - 682 028, Kerala, India. I.PH: 0484-4335000
E-mail: mail@vguard.in | Website: www.vguard.in | CIN: L72200WB1987PLC043375

These details are also available on the Bombay Stock Exchange website (URL: www.bseindia.com/corporates), the National Stock Exchange website (URL: www.nseindia.com/corporates) and on the Company website (URL: www.greatship.com/press_releases.html).

For The Great Eastern Shipping Co. Ltd.

Sd/-
Jayesh M. Trivedi
President (Sec. & Legal) & Company Secretary

Place : Mumbai
Date : July 20, 2020

Email: shares@greatship.com
Web: www.greatship.com

HB PORTFOLIO LIMITED

CIN : L67120HR1994PLC034148

Registered Office : Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector 32, Gurugram-122001, Haryana

Phone : +91-124-4675500, Fax : +91-124-4370985

E-mail : corporate@hbportfolio.com, Website : www.hbportfolio.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

COMPULSORY TRANSFER OF EQUITY SHARES TO DEMAT ACCOUNT OF THE INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) AUTHORITY

NOTICE is hereby given pursuant to the provisions of "Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016" as amended from time to time by the Ministry of Corporate Affairs ("the said Rules").

Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the said Rules provides for transfer of all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more to the Demat Account of the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

The Company has communicated individually to the concerned Shareholders that all Shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by them for seven consecutive years from the Financial Year 2012-13 onwards shall be transferred to Demat Account of the IEPF Authority.

The Shareholders who hold Shares in physical form may please note that the Company would be issuing new Share Certificate(s) in lieu of the Original Share Certificate(s) held by them for the purpose of conversion into DEMAT form and subsequent transfer to DEMAT Account of the IEPF Authority. Upon such issue, the Original Share Certificate(s) issued to such Shareholders will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The Shareholders who hold Shares in Demat form may also note that their Shares shall be transferred by the Company to DEMAT Account of the IEPF Authority by way of Corporate Action through the respective Depository.

The Company has uploaded complete details of such Shares on its website, www.hbportfolio.com which shall be deemed to be adequate notice in respect of issue of new Share Certificate(s) by the Company for the purpose of transfer to DEMAT Account of IEPF Authority.

Any further Dividend on such Shares shall be credited to the IEPF Account. Shareholders may further note that upon credit of such Shares to the IEPF Authority, no claim shall lie against the Company in respect of the Unclaimed Dividend amount and Shares transferred to the IEPF Authority. However, Shareholders may claim back their Unclaimed Dividend and Shares from the IEPF Authority after following the procedure prescribed under the IEPF Rules. The procedure for claiming the same is available at www.iepf.gov.in and www.hbportfolio.com

The Shareholders may claim their Unpaid Dividend by making an application to RCMC Share Registry Pvt. Ltd., Registrar and Transfer Agents of the Company on or before 12th October, 2020. In case the Company does not receive any communication from the concerned Shareholders, the Company shall transfer their Shares to the DEMAT Account of IEPF Authority in order to comply with the requirements set out in the said Rules.

In case of any queries, please feel free to contact RCMC Share Registry Pvt. Ltd., Mr. Ravinder Dua, Ph: 011-26387320; E-mail: rdua@rcmcdelhi.com

For HB Portfolio Limited

Sd/-

DINESH KAPOOR

(Company Secretary)

M. No.: F-6731

Date : 20.07.2020
Place : Gurugram

HOTEL RUGBY LIMITED

CIN: L55101MH1991PLC063265

Regd. Office: 2, Ground floor, 9, Dev Bhuvan, Gazdar Street, Chira Bazar, Kalbadevi, Mumbai - 400002. Tel. - 022 67470380

Website: www.hotelrugby.co.in

e-mail: rugbyhotel@rediffmail.com

NOTICE

NOTICE is hereby given Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 (1) (a) of Securities Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Meeting of Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 29th July, 2020 inter alia to consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the Quarter and year ended 31st March, 2020. The said notice

DEEMED EDITION

Printed and Published by Nandan Singh Rawat on behalf of Business Standard Private Limited and printed at The Indian Express (P) Ltd. A-8, Sector-7, Noida, Gautam Budh Nagar-201301 and published at Nehru House, 4 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110002

Editor : Shyamal Majumdar

RNI No. 57376/1994

Readers should write their feedback at feedback@bsmail.in

Ph. 011-23720202, Fax: +91-11-23720201

For Subscription and Circulation enquiries please contact:

Ms. Mansi Singh

Head-Customer Relations

Business Standard Private Limited.

H/4 & I/3, Building H, Paragon Centre, Opp.

Birla Centurion, P.B. Marg, Worli,

Mumbai - 400013

E-mail: subs_bs@bsmail.in

"or sms, SUB BS to 57007"

DISCLAIMER News reports and feature articles in Business Standard seek to present an unbiased picture of developments in the markets, the corporate world and the government. Actual developments can turn out to be different owing to circumstances beyond Business Standard's control and knowledge. Business Standard does not take any responsibility for investment or business decisions taken by readers on the basis of reports and articles published in the newspaper. Readers are expected to form their own judgement.

Business Standard does not associate itself with or stand by the contents of any of the advertisements accepted in good faith and published by it. Any claim related to the advertisements should be directed to the advertisers concerned.

Unless explicitly stated otherwise, all rights reserved by M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any printing, publication, reproduction, transmission or dissemination of the contents, in any form or by any means, is prohibited without the prior written consent of M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any such prohibited and unauthorised act by any person/legal entity shall invite civil and criminal liabilities.

No Air Surcharge

RS SOFTWARE (INDIA) LIMITED

(CIN: L72200WB1987PLC043375)

Registered Office : FMC FORTUNA, 1st Floor, A-2, 234/3A, A.J.C. Bose Road, Kolkata - 700 020

Phone Nos.: 033 22876254 / 6255 / 5746

Fax No.: 033 22876256

Company's website: www.rssoftware.com

NOTICE

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, the 28th July 2020 at 4:30 p.m. to consider and approve the Audited Financial Results for the Quarter ending 30th June, 2020 and matters thereof.

By Order of the Board

HEX
Regd. Office: Bldg 152, Millienn Sector III, A Block, Mani Phone : 022 - 4159 website : www.hexaware.co CIN : L7290

Notice is hereby given pursuant to C of the SEBI (Listing Obligations and 2015 that a Meeting of the Board Tuesday, July 28, 2020, to consider standalone financial results of the C June 30, 2020 and consider declar the company.

The aforesaid intimation is also ava of India Ltd (www.nseindia.com). E

NOTICE



DISPATCH OF NOTICE OF 24TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

Notice is hereby given that the 24th Annual General Meeting ("AGM") of the Company scheduled to be held on Wednesday, August 12, 2020, at 3.30 p.m through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM). The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company at 42/962, Vennala High School Road, Vennala, Ernakulam-682028

In compliance with General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 20/2020 dated May 05, 2020 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMO1/CIR/P/2020/79 dated May 11 2020 issued by Securities and Exchange Board of India, the Notice of the AGM and the Annual Report for the Financial Year 2019-20 have been sent in electronic mode to all shareholders whose email addresses are registered with the Company or Depository Participant(s). The electronic dispatch of Notice and Annual report have been completed on July 20, 2020 and the same is also made available on the Company's website at www.vguard.in and the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and on the websites of the stock exchanges, namely, NSE & BSE. The documents pertaining to the item of business to be transacted in the AGM shall be made available for inspection by writing at Company's mail ID investors@vguard.in.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations"), the Company is providing the shareholders the facility to cast their votes, in the business items proposed in the Notice of AGM electronically from a place other than the venue of AGM ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the Agency to provide e-voting facility.

A person, whose name appears in the Register of Members / Beneficiaries as on the cut-off date, i.e., Wednesday, August 05, 2020, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / voting at the Meeting. The remote e-voting facility shall commence on Sunday, August 09, 2020 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Tuesday, August 11, 2020 at 5.00 p.m. (IST). The e-voting facility shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast vote again.

The facility for voting through electronic voting system shall also be made available during the Meeting on the day of the AGM and the Member participating in the AGM through VC/OAVM, who have not already cast the vote by remote e-voting shall be able to exercise their right in the meeting. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the AGM through VC/ OAVM but shall not be entitled to cast their vote again in the meeting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date may obtain user ID and password by sending an email to evoting@nsdl.co.in or investors@vguard.in mentioning his/her Folio No./DP ID and Client ID No. The detailed procedure for obtaining User ID and password is provided in the Notice of the meeting which is available on the websites of Company and NSDL. However, if the member already registered with NSDL for e-voting, then he/she can use his/her existing user ID and password for casting your vote.

The Company has appointed Mr. M D Selvaraj, MDS & Associates, Practitioner, Company Secretaries, Coimbatore, to act as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process and voting during the AGM in a fair and transparent manner.

In case of any grievance or query connected with remote e-voting/ voting during the AGM, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQ) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no 1800-222-990 or send a request to Mr. Amit Vishal, Senior Manager-NSDL, amitv@nsdl.co.in / 022-24994360 or at evoting@nsdl.co.in or at Company email id investors@vguard.in.

For V-GUARD INDUSTRIES LIMITED

Sd/-

Jayasree K

Company Secretary

Place: Ernakulam
Date : July 21, 2020

V-GUARD INDUSTRIES LIMITED., Regd. Office: 42/962, Vennala High School Road, Vennala P.O, Ernakulam - 682 028, Kerala, India. I.PH: 0484-4335000
E-mail: mail@vguard.in | Website: www.vguard.in | CIN: L31200KL1996PLC01001



SHRIRAM SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LIMITED

CIN: L65947TN1997PLC000074

जिन शेयरधारकों के पास शेयर भौतिक रूप में हैं, कृपया नोट करें कि कम्पनी उन शेयरों का डीमैट रूप में परिवर्तित करने के लिए मूल शेयर प्रमाणपत्र के स्थान पर नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी तथा उसके बाद वे आईडीपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे। ऐसे निर्गमन पर, इन शेयरधारकों को जारी किए गए मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः निरस्त हो जाएंगे और अपराक्रम्य माने जाएंगे। जिन शेयरधारकों के पास शेयर डीमैट रूप में हैं, वे भी नोट करें कि उनके शेयर कम्पनी द्वारा संबंधित डिपॉजिटरी के माध्यम से कार्पोरेट कार्यवाही द्वारा आईडीपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किए जाएंगे।

कम्पनी इन शेयरों का पूर्ण विवरण अपनी वेबसाइट www.hbstockholdings.com पर अपलोड कर चुकी है, जो शेयरों को आईडीपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित करने के प्रयोजन हेतु कम्पनी द्वारा नए शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाने के संबंध में यथेष्ट सूचना मानी जाएगी।

इन शेयरों पर कोई भी अतिरिक्त लाभांश आईडीपीएफ खाते में क्रेडिट किया जाएगा। शेयरधारक आगे नोट करें कि इन शेयरों को आईडीपीएफ प्राधिकरण को क्रेडिट किए जाने पर, मांगी नहीं गई लाभांश राशि तथा आईडीपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए गए शेयरों के संबंध में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा। तथापि, शेयरधारक मांगी नहीं गई लाभांश राशि तथा आईडीपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए गए शेयरों की मांग आईडीपीएफ प्राधिकरण से, आईडीपीएफ नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन द्वारा कर सकते हैं। उक्त वापसी की मांग हेतु प्रक्रिया www.iepf.gov.in तथा www.hbstockholdings.com पर उपलब्ध है।

शेयरधारक, अपनी अवैतनिक लाभांश राशि की मांग आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्रा. लि., कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट को 25 सितम्बर, 2020 को अथवा पहले आवेदन देकर कर सकते हैं। यदि कम्पनी को संबंधित शेयरधारकों से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, कम्पनी उक्त नियमावली में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुपालन की दृष्टि से, उक्त नियमावली में अनुबद्ध प्रक्रिया के अनुसार शेयर आईडीपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित कर देगी।

यदि शेयरधारकों को कोई सवाल है, कृपया आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्रा. लि., श्री रवीन्द्र दुआ, फोन नंबर 011-26387320; ई-मेल rdua@rcmodelhi.com से सम्पर्क करें।

कृते एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड
हस्ता./—
रूपेश कुमार
(कम्पनी सचिव)
M. No.: A-43104

तिथि : 20.07.2020
स्थान : गुरुग्राम

provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") that the Company is required to transfer the shares in respect of which dividend remains unpaid or unclaimed for a period of seven consecutive years, to the IEPF Account established by the Central Government. The said shares correspond to the shareholders who have not claimed dividend for F.Y. 2012-13 and following six years thereafter. A list of such shareholders, who have not encashed their dividends for seven consecutive years is available on the website of the Company www.talbro.com. The Company has sent individual communication dated 9th July, 2020 to concerned shareholders at their registered addresses, inter alia, providing details of their shares liable to be transferred to IEPF Account. Shareholders are requested to forward requisite documents as mentioned in said communication to the Company's Registrar & Share Transfer Agent to claim the unclaimed dividend amount(s).

Notice is further hereby given that in the absence of receipt of a valid claim by the shareholder, the Company would be transferring the said shares to IEPF Account without further notice in accordance with the requirement of said Rules. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said Rules. Further, upon such transfer, shareholders can claim the transferred shares along with dividends from the IEPF Authority, for which details are available at www.iepf.gov.in

For any information/clarifications on this matter, concerned shareholders may write to the Company at seema.narang@talbro.com or contact Registrar and Share Transfer Agent of the Company-KFIN Technologies Private Limited, Selenium Tower B, Plot Number 31 & 32, Financial District Gachibowli, Hyderabad 500032; Phone No. 91 040 67161524; Email id: rjavee.kr@kfinetech.com

For Talbros Automotive Components Limited
Sd/-
Seema Narang
Company Secretary

Place : Faridabad
Date : 20th July, 2020

अधिकारी होने के नाते अधोस्थाहरी ने सिक्योरिटी एफ़ोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इंटरस्ट एक्ट, 2012 (सिक्योरिटी इंटरस्ट (एफ़ोर्समेंट) क्लस, 2002) के तहत सिक्योरिटी अधिकांश का कार्यान्वयन करके 17.07.2020 के अनुसार उक्त शेयरों को डीमैट खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता के बीच संचित होने वाले धनराशि चुकता करने के कर्जदारों के अभाव में जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोस्थाहरी उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी अधिकांश का कार्यान्वयन करके 17.07.2020 के अनुसार उक्त शेयरों को डीमैट खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 8 के तहत सिक्योरिटी अधिकांश का कार्यान्वयन करके 17.07.2020 के अनुसार उक्त शेयरों को डीमैट खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।

अचल
फ्लैट नं.-204, दुसरी मंजिल सु
प्रोव्यू लाबोनी, जीएफ़ प्लॉट नं.06, क्रोसिंग
एनएच-24, डूबाहेड़ा, गाज़ियाबाद-201016,
पूर्व : टाइटल डीड के अनुसार
उत्तर : टाइटल डीड के अनुसार
दिनांक : 17.07.2020
स्थान : गाज़ियाबाद

एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटेड
CIN: L99999HR1994PLC034146

पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशालोन इस्टेट्यूशनल एरिया, सेक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा
फोन : +91-124-4675500, फैक्स : +91-124-4370985
ई-मेल : corporate@hbestate.com, वेबसाइट : www.hbestate.com

शेयरधारकों को सूचना

इन्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि
(आईडीपीएफ) प्राधिकरण के डीमैट खाते में अनिवार्य अंतरण

एतद्वारा यह सूचना "निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियमावली, 2016" कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा समय समय पर संशोधित, ("उक्त नियमावली") के प्रावधानों के अनुसरण में प्रकाशित की जा रही है।

कम्पनी उन संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना दे चुकी है कि वे सभी शेयरों का अंतरण निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईडीपीएफ) प्राधिकरण के डीमैट खाते में करने का प्रावधान किया गया है, जिनके लाभांश का भुगतान लगातार सात या अधिक वर्षों से नहीं किया गया है अथवा जिसकी मांग नहीं की गई है।

कम्पनी उन संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना दे चुकी है कि वे सभी शेयर जिनके संबंध में वित्तीय वर्ष 2012-13 से लाभांश का भुगतान लगातार सात वर्षों से नहीं किया गया है अथवा जिसकी मांग नहीं की गई है, आईडीपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे।

जिन शेयरधारकों के पास शेयर भौतिक रूप में हैं, कृपया नोट करें कि कम्पनी उन शेयरों को डीमैट रूप में परिवर्तित करने के लिए मूल शेयर प्रमाणपत्र के स्थान पर नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी तथा उसके बाद वे आईडीपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे। ऐसे निर्गमन पर, इन शेयरधारकों को जारी किए गए मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः निरस्त हो जाएंगे और अपराक्रम्य माने जाएंगे। जिन शेयरधारकों के पास शेयर डीमैट रूप में हैं, वे भी नोट करें कि उनके शेयर कम्पनी द्वारा संबंधित डिपॉजिटरी के माध्यम से कार्पोरेट कार्यवाही द्वारा आईडीपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किए जाएंगे।

कम्पनी इन शेयरों का पूर्ण विवरण अपनी वेबसाइट www.hbestate.com पर अपलोड कर चुकी है, जो शेयरों को आईडीपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित करने के प्रयोजन हेतु कम्पनी द्वारा नए शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाने के संबंध में यथेष्ट सूचना मानी जाएगी।

इन शेयरों पर कोई भी अतिरिक्त लाभांश आईडीपीएफ खाते में क्रेडिट किया जाएगा। शेयरधारक आगे नोट करें कि इन शेयरों को आईडीपीएफ प्राधिकरण को क्रेडिट किए जाने पर, मांगी नहीं गई लाभांश राशि तथा आईडीपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए गए शेयरों के संबंध में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा। तथापि, शेयरधारक मांगी नहीं गई लाभांश राशि तथा आईडीपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए गए शेयरों की मांग आईडीपीएफ प्राधिकरण से, आईडीपीएफ नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन द्वारा कर सकते हैं। उक्त वापसी की मांग हेतु प्रक्रिया www.iepf.gov.in तथा www.hbestate.com पर उपलब्ध है।

शेयरधारक, अपनी अवैतनिक लाभांश राशि की मांग आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्रा. लि., कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट को 26 दिसंबर, 2020 को अथवा पहले आवेदन देकर कर सकते हैं। यदि कम्पनी को संबंधित शेयरधारकों से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, कम्पनी उक्त नियमावली में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुपालन की दृष्टि से, उक्त नियमावली में अनुबद्ध प्रक्रिया के अनुसार शेयर आईडीपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित कर देगी।

यदि शेयरधारकों को कोई सवाल है, कृपया आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्रा. लि., श्री रवीन्द्र दुआ, फोन नंबर 011-26387320; ई-मेल rdua@rcmodelhi.com से सम्पर्क करें।

कृते एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटेड
हस्ता./—
राधिका खुराना
(कम्पनी सचिव)
M. No.: A-32557

तिथि : 20.07.2020
स्थान : गुरुग्राम

एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड
CIN: L67120HR1994PLC034148

पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशालोन इस्टेट्यूशनल एरिया, सेक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा
फोन : +91-124-4675500, फैक्स : +91-124-4370985
ई-मेल : corporate@hbportfolio.com, वेबसाइट : www.hbportfolio.com

शेयरधारकों को सूचना

इन्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि
(आईडीपीएफ) प्राधिकरण के डीमैट खाते में अनिवार्य अंतरण

एतद्वारा यह सूचना "निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियमावली, 2016" कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा समय समय पर संशोधित, ("उक्त नियमावली") के प्रावधानों के अनुसरण में प्रकाशित की जा रही है।

कम्पनी उन संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना दे चुकी है कि वे सभी शेयरों का अंतरण निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईडीपीएफ) प्राधिकरण के डीमैट खाते में करने का प्रावधान किया गया है, जिनके लाभांश का भुगतान लगातार सात या अधिक वर्षों से नहीं किया गया है अथवा जिसकी मांग नहीं की गई है।

कम्पनी उन संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना दे चुकी है कि वे सभी शेयर जिनके संबंध में वित्तीय वर्ष 2012-13 से लाभांश का भुगतान लगातार सात वर्षों से नहीं किया गया है अथवा जिसकी मांग नहीं की गई है, आईडीपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे।

जिन शेयरधारकों के पास शेयर भौतिक रूप में हैं, कृपया नोट करें कि कम्पनी उन शेयरों को डीमैट रूप में परिवर्तित करने के लिए मूल शेयर प्रमाणपत्र के स्थान पर नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी तथा उसके बाद वे आईडीपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे। ऐसे निर्गमन पर, इन शेयरधारकों को जारी किए गए मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः निरस्त हो जाएंगे और अपराक्रम्य माने जाएंगे। जिन शेयरधारकों के पास शेयर डीमैट रूप में हैं, वे भी नोट करें कि उनके शेयर कम्पनी द्वारा संबंधित डिपॉजिटरी के माध्यम से कार्पोरेट कार्यवाही द्वारा आईडीपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किए जाएंगे।

कम्पनी इन शेयरों का पूर्ण विवरण अपनी वेबसाइट www.hbportfolio.com पर अपलोड कर चुकी है, जो शेयरों को आईडीपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित करने के प्रयोजन हेतु कम्पनी द्वारा नए शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाने के संबंध में यथेष्ट सूचना मानी जाएगी।

इन शेयरों पर कोई भी अतिरिक्त लाभांश आईडीपीएफ खाते में क्रेडिट किया जाएगा। शेयरधारक आगे नोट करें कि इन शेयरों को आईडीपीएफ प्राधिकरण को क्रेडिट किए जाने पर, मांगी नहीं गई लाभांश राशि तथा आईडीपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए गए शेयरों के संबंध में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा। तथापि, शेयरधारक मांगी नहीं गई लाभांश राशि तथा आईडीपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए गए शेयरों की मांग आईडीपीएफ प्राधिकरण से, आईडीपीएफ नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन द्वारा कर सकते हैं। उक्त वापसी की मांग हेतु प्रक्रिया www.iepf.gov.in तथा www.hbportfolio.com पर उपलब्ध है।

शेयरधारक, अपनी अवैतनिक लाभांश राशि की मांग आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्रा. लि., कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट को 12 अक्टूबर, 2020 को अथवा पहले आवेदन देकर कर सकते हैं। यदि कम्पनी को संबंधित शेयरधारकों से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, कम्पनी उक्त नियमावली में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुपालन की दृष्टि से, उक्त नियमावली में अनुबद्ध प्रक्रिया के अनुसार शेयर आईडीपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित कर देगी।

यदि शेयरधारकों को कोई सवाल है, कृपया आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्रा. लि., श्री रवीन्द्र दुआ, फोन नंबर 011-26387320; ई-मेल rdua@rcmodelhi.com से सम्पर्क करें।

कृते एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड
हस्ता./—
दिनेश कपूर
(कम्पनी सचिव)
M. No.: F-6731

तिथि : 20.07.2020
स्थान : गुरुग्राम

NIKKI GLOBAL FINANCE LIMITED
Regd. Off.: I-9, LGF, Lajpat Nagar -1, New Delhi - 110024,
CIN: L65999DL1986PLC024493
Telefax: +91-11-64000323
Web: www.nikkiglobal.com
Email: info@nikkiglobal.com

Notice

Notice is hereby given pursuant Regulation 29 read with Regulation 47 SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, amended from time to time, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 7th August, 2020 at 11:00 A.M. at the Registered Office of the Company at I-9, LGF, Lajpat Nagar-1, New Delhi - 110024, to inter-alia, consider and approve the audited financial results of the Company for the quarter ended 30th June, 2020 & any other business with the permission of Chair. Further, pursuant to the Company's Code of Conduct to regulate, monitor and regulate trading by Directors, Promoters, Designated Employees and Connected Persons of the Company for Prohibition of Insider Trading, the 'Trading Window' closure period has commenced from 1st July, 2020 and will end 48 hours after results are made public on 7th August, 2020.

The information contained in this notice is available on the Company's website www.nikkiglobal.com and also on the website of BSE Ltd. - www.bseindia.com.

For Nikki Global Finance Limited
Sd/-
Date : 20.07.2020 Managing Director
Place : New Delhi DIN: 023191

अपनी प्रति के लिए
Call 022 4027 5432 or
SMS reachbs to 57575 or
email us at
order@bsmail.in